

बी सी एम (एन) -501 प्रबंधकीय निर्णय के लिए लेखांकन

BCM(N)-501 ACCOUNTING FOR MANAGERIAL DECISIONS

खण्ड -1

प्रस्तावना (Introduction)

इकाई -1 प्रबंध लेखांकन-संकल्पना, प्रकृति, उद्देश्य और कार्य (Management Accounting-Concept, Nature, Objectives and Functions)

इकाई-2 वित्तीय विवरण (Financial Statements)

इकाई-3 वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और तुलना (Analysis and Comparison of Financial Statements)

इकाई-4 अनुपात विश्लेषण (Ratio Analysis)

खण्ड -2 कोष व रोकड़ प्रवाह विवरण और सीमांत लागत (Funds and Cash Flow Statement and Marginal Costing)

इकाई-5 कोष प्रवाह विवरण (Funds Flow Statement)

इकाई-6 रोकड़ प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement)

इकाई-7 सीमांत लागत और सीमांत लागत तकनीक के अनुप्रयोग (Marginal Costing and Application of Marginal Costing Techniques)

इकाई-8 विभेदक लागत –विश्लेषण व निर्णयन (Differential Cost-analysis and Decision Making)

खण्ड -3 बजटीय नियंत्रण और प्रमाप लागत और निष्पादन बजट (Budgetary Control and Standard Costing and Performance Budgeting)

इकाई-9 बजट और बजटीय नियंत्रण (Budgeting and Budgetary Control)

इकाई-10 प्रमाप लागत (Standard Costing)

इकाई-11 रोकड़ बजट (Cash Budget)

इकाई-12 निष्पादन बजट (Performance Budgeting)

इकाई-13 पूँजी बजटिंग (Capital Budgeting)

खण्ड -4 पूँजी संरचना और उत्तरदायित्व लेखा (Capital Structure and Responsibility Accounting)

इकाई-14 कार्यशील पूँजी प्रबंध (Working Capital Management)

इकाई-15 पूँजी संरचना (Capital Structure)

इकाई-16 उत्तोलन-परिचालन और वित्तीय (Leverages-Operating and Financial)

इकाई-17 उत्तरदायित्व लेखांकन (Responsibility Accounting)

इकाई-18 प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System)